

डिजिटल पैमेंट से भुगतान पर उपभोक्ताओं को किया सम्मानित

भीलवाड़ा | प्रदेश में कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने व डिजिटल भुगतान को प्रेरित करने के लिए आसींद तहसील के सालरमाला निवासी बालीदेवी और लाडपुरा के राधेश्याम धाकड़ को



स्मार्टफोन हैंडसेट देकर सम्मानित किया गया। जिला परिषद के सीईओ गजेंद्रसिंह राठौड़ ने बताया कि प्रदेश सरकार की योजना के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा डिजिटल पेमेंट से भुगतान करने वाले राज्य के कुल 66 उपभोक्ताओं को राज्य स्तर पर लॉटरी से चुना गया था।